



Regd. & Corporate Office : 401-402, Lusa Tower  
Azadpur Commercial Complex, Delhi-110 033  
Telefax : + 91 1127679700-05 (6 Lines)  
e mail : info@insecticidesindia.com  
www.insecticidesindia.com  
CIN : L65991DL1996PLC083909



Ref: IIL/SE/2025/1408/01

Dated: August 14, 2025

**The Manager**

<b>Listing Compliance Department</b> BSE Limited (Through BSE Listing Centre)  <b>Scrip Code: 532851</b>	<b>Listing Compliance Department</b> National Stock Exchange of India Limited (Through NEAPS)  <b>Symbol: INSECTICID</b>
--	--

Dear Sir/Madam,

**Sub: Newspaper advertisement of Unaudited Financial Results for the First Quarter ended June 30, 2025.**

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to enclosed herewith the extract of the newspaper advertisement published on August 14, 2025 in Business Standard (English Daily) and Business Standard (Hindi Daily) for the Unaudited Financial Results for the First Quarter ended June 30, 2025, of the Company. The aforesaid results have been approved by the Board of Directors in its meeting held on August 13, 2025.

This will also be hosted on the company's website at [www.insecticidesindia.com](http://www.insecticidesindia.com).

This is for information and records.

Thanking You,  
**For Insecticides (India) Limited**

(Sandeep Kumar)  
**Company Secretary & CCO**

*Encl: As above*

# New SC bench to hear stray dog case today

**PRESS TRUST OF INDIA**  
New Delhi, 13 August

After widespread protests across the country following a top court verdict on relocation of stray dogs in Delhi-NCR, a new three-judge bench of the Supreme Court will hear the suo motu case on Thursday.

A bench comprising Justices Vikram Nath, Sandeep Mehta and N V Anand will hear the matter.

The directions to permanently relocate stray dogs from streets to shelters "at the earliest" were passed by a bench comprising Justice J B Pardi-

wala and Justice R Mahadevan on August 11.

When some petitioners in another stray dogs-related case mentioned their plea while referring to the August 11 verdict before the Chief Justice of India B R Gavai, he said he "will look into it".

On August 11, a bench of Justices Pardiwala and Mahadevan observed instances of dog bites had been rising to an "extremely grim" situation and ordered the permanent relocation of all strays in Delhi-NCR "at the earliest".

On Wednesday, the lawyer referred to a May 2024 order



**CJI B R Gavai** said "I will look into it", when another plea relating to stray dogs was mentioned before him

passed by a bench led by Justice J K Maheshwari relegating petitions relating to

the stray dog issue to respect high courts.

The plea by Conference for Human Rights (India) claims the Animal Birth Control (Dog) Rules, 2001 — mandating regular sterilisation and immunisation programmes for stray dogs to curtail their growing population — are not being complied with.

In its August 11 ruling, the apex court also said dog shelters will have to be augmented over time and directed Delhi authorities to start with creating shelters of around 5,000 canines within six to eight weeks.

Besides, the bench warned of strict action against an individual or organisation in case of any kind of obstruction in the relocation drive that might also prompt the court to initiate contempt proceedings.

Meanwhile, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has said treating stray dogs as a nuisance to be 'removed' is not governance, it is 'cruelty'.

"Treating stray dogs as a nuisance to be 'removed' is not governance — it is cruelty. Humane societies find solutions that protect people and animals," Siddaramaiah posted on X.


**When industry giants speak, everyone listens.**

In-depth Q&As with market mavens — every Monday in Business Standard.

To book your copy, SMS reaches to 57575 or email [order@bsmail.in](mailto:order@bsmail.in)

**Business Standard**  
Insight Out

## POORE PACHAAS SAAL!



## IOA approves India's 2030 Commonwealth Games bid

**PRESS TRUST OF INDIA**  
New Delhi, 13 August

The Indian Olympic Association (IOA) on Wednesday formally approved the country's bid to host the 2030 Commonwealth Games during its Special General Meeting (SGM) here with its top officials saying that India would host an "inclusive" edition featuring all "medal-earning" sports.

India has already submitted an Expression of Interest for the 2030 CWG with Ahmedabad as the host city. But the nation will have to submit the proposals for the final bid before the August 31 deadline.

IOA President P T Usha said along with Ahmedabad, 2010 host Delhi and Bhubaneswar will also be considered.

"I'm happy that all are together and it was a unanimous decision. Our preparations will go ahead. We can't just wait whether Ahmedabad is the host city. We have good facilities in Bhubaneswar and even in Delhi also. We will very soon announce where the Games will be held," Usha said after the SGM that lasted just over half an hour.

"The 2026 Glasgow CWG is a scaled down Games because of circumstances. If we get 2030 CWG, it will be

full fledged one just like we did in 2010," she added, referring to the pruned roster of the 2026 Glasgow edition where major sports like hockey, badminton, wrestling and shooting have been left out citing the cost factor.

IOA CEO Raghuram Iyer said "we cannot say anything as of now", when asked whether there is a chance of more than one city hosting the 2030 CWG.

With Canada having pulled out of the race, India's chances of getting the 2030 CWG have brightened.

"The plan is to have all our medal-earning sports like shooting, archery, wrestling etc. Our traditional sports like kabaddi, kho kho, and yoga should also be there," IOA joint secretary Kalyan Chaudhary said.

A team of officials from Commonwealth Sport (earlier CGF), led by its Director of Games Darren Hall, recently visited Ahmedabad to inspect the venues and meet Gujarat government officials. Asked about the feedback from the Commonwealth Sport delegation, Iyer said, "Overall they have gone back happy and by the end of the month, now that we have the go ahead of the General Body, we will be in the proposals."

**INDIA WILL HAVE TO SUBMIT THE PROPOSALS FOR THE FINAL BID BEFORE THE AUGUST 31 DEADLINE**

**insecticides**  
(INDIA) LIMITED

Scan to View Full Report  
of the financial results

Regd. Office: 401-402, Lusa Tower, Azadpur Commercial Complex, Delhi-110 033, Telefax.: 011-2679700-05  
Website: [www.insecticidesindia.com](http://www.insecticidesindia.com), Email: [investor@insecticidesindia.com](mailto:investor@insecticidesindia.com), CIN: L65991DL1996PLC083909

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025										(† In Lac, Except EPS)			
Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated							
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended					
		30-06-2025 (Unaudited)	31-03-2025 (Audited)	30-06-2024 (Unaudited)	31-03-2024 (Audited)	30-06-2025 (Unaudited)	31-03-2025 (Audited)	30-06-2024 (Unaudited)	31-03-2024 (Audited)				
1	Total Income from Operations	89,511.75	36,229.85	65,922.41	2,204.90	89,483.88	36,177.69	85,919.58	2,204.94				
2	Net Profit for the year (before Tax)	7,684.43	2,225.13	6,561.34	19,028.49	7,745.35	2,202.33	6,601.42	19,278.94				
3	Net Profit for the year (after Tax)	5,730.05	1,402.49	4,913.59	13,876.56	5,810.54	1,389.11	4,937.18	14,201.86				
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	5,724.04	1,394.86	4,745.16	13,848.09	5,805.08	1,374.86	4,763.91	14,087.09				
5	Profit-Up/Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	2,909.78	2,909.78	2,959.78	2,909.78	2,909.78	2,909.78	2,959.78	2,909.78				
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Financial Year	-	-	-	1,05,289.25	-	-	-	1,05,549.60				
7	Earnings Per Equity Share (Face Value of ₹10/- each) Basic	19.69	4.82	16.60	47.61	19.97	4.77	16.68	48.38				
	Diluted	19.69	4.42	16.60	47.61	19.97	4.77	16.68	48.38				

#### NOTES:

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results/Explanatory Notes is available on the Stock Exchange website at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.insecticidesindia.com](http://www.insecticidesindia.com)
- The above financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind AS), the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), as applicable and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Ind AS as prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and amendments thereto.

The Board of Directors of Insecticides (India) Limited at its meeting held on August 08, 2024 had approved the consolidated/audited of its wholly owned subsidiary Ind AS Overseas DMCC, Dubai. Accordingly, Ind Overseas DMCC has filed its application for winding up/ dissolution with DMCA (Office of the Registrar of Companies of Dubai) Multi Commodities Centre (Authority) for which approval is yet to be received as on June 30, 2025.

For and on behalf of the Board of Directors  
Insecticides (India) Limited  
Sd/-  
(Rajesh Kumar Aggarwal)  
Managing Director  
DIN-00570872

Place: Delhi  
Date: 13/06/2025

### NOTES:

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results and Explanatory Notes are available on the Stock Exchange website at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.insecticidesindia.com](http://www.insecticidesindia.com).
- The above financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind AS), the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), as applicable and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Ind AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and amendments thereto.
- The Board of Directors of Insecticides (India) Limited at its meeting held on August 08, 2024 had approved the dissolution/liquidation of its wholly owned subsidiary IL Overseas DMCC, Dubai. Accordingly, IL Overseas DMCC has filed the application for winding up/dissolution with DMCA (Office of the Registrar of Companies of Dubai Multi Commodities Centre Authority) for which approval is yet to be received as of June 30, 2025.

Place: Delhi  
Date: 13/08/2025

For and on behalf of the Board of Directors  
**Insecticides (India) Limited**  
Sd/  
(Rajesh Kumar Agarwal)  
Managing Director  
DIN: 020076672

## EMPOWERING FARMERS ELEVATING THE PRIDE OF NEW INDIA



**HAR KADAM HUM KADAM**



**TOGETHER, WE'RE UNSTOPPABLE**  
HIGHEST EVER QUARTERLY REVENUE & EBITDA



**Gulf Oil Lubricants India Limited**  
Registered & Corporate Office: IN Centre, 49/50, MIDC, 12<sup>th</sup> Road, Andheri (E), Mumbai-400 093, Maharashtra, India.  
CIN NO L23203MH2008PLC267060  
Tel No. +91 22 66487777 | Fax: +91 22 28248232  
Website: [www.india.gulfoilltd.com](http://www.india.gulfoilltd.com) | Email: [secretarial@gulfoilltd.com](mailto:secretarial@gulfoilltd.com)

Consolidated  
Q1 FY 26  
Revenue  
**13.69%** ↑  
PAT  
**12.90%** ↑

### EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

Particulars	Standalone (₹ Lakhs)				Consolidated (₹ Lakhs)			
	Quarter ended 30.06.2025 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 30.06.2025 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)
Revenue from Operations	99,636.28	91,508.29	88,507.31	355,496.07	101,645.15	95,274.05	89,404.42	363,116.09
Profit from ordinary activities before tax	12,971.64	12,343.34	11,820.01	48,574.28	12,778.20	12,521.06	11,375.71	47,947.02
Net Profit from ordinary activities after tax	9,665.93	9,161.70	8,802.26	36,224.97	9,517.49	9,279.85	8,429.75	35,738.73
Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit and other Comprehensive Income for the period)	9,625.02	9,035.15	8,762.85	35,888.92	9,476.58	9,153.82	8,390.34	35,410.28
Equity share capital (Face value Rs. 2 per share)	986.09	986.09	983.92	986.09	986.09	983.92	986.09	986.09
Reserves (excluding Revaluation reserves)	-	-	-	145,438.63 (As at 31/03/2025)	-	-	-	145,185.85 (As at 31/03/2025)
Earnings Per Share (Face value Rs. 2 per share)								
a) Basic - Rs.	*19.60	*18.58	*17.90	73.57	*19.45	*18.70	*17.49	73.09
b) Diluted - Rs.	*19.45	*18.41	*17.74	72.90	*19.30	*18.53	*17.34	72.42

\*Not Annualised

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of statement of unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the statement of unaudited Financial Results is available on the stock exchange websites, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.india.gulfoilltd.com](http://www.india.gulfoilltd.com).



For and on behalf of Board of Directors of  
**GULF OIL LUBRICANTS INDIA LIMITED**  
Ravi Chawla  
Managing Director & CEO  
DIN: 02080474

Place: Mumbai  
Date: August 13, 2025



**Consistent Growth. Proven Strength.**



### YOY PERFORMANCE HIGHLIGHTS

↑ 20%	Total Deposits	₹35,935 Crs
↑ 31%	Gross Advances	₹32,944 Crs
↑ 25%	Total Business	₹68,879 Crs
↑ 42%	New Interest Income	₹245 Crs
↑ 28%	Total Income	₹1,286 Crs
↑ 28%	Operating Profit	₹220 Crs

(₹ In Lakh)

### EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended
		30.06.2025 (Unaudited)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from operations	128565	136236	100386
2	Net Profit for the Period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	15952	25654	15243
3	Net Profit for the Period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	15952	25654	15243
4	Net Profit for the Period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	11860	19044	11332
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	Refer Note 3		
6	Equity Share Capital	17354	17354	17354
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet.	-	-	415036
8	Earnings Per Share (before extraordinary items)* (Face value of ₹10/- each)			
	Basic:	6.84	10.98	6.53
	Diluted:	6.84	10.98	6.53
9	Earnings Per Share (after extraordinary items)* (Face value of ₹10/- each)			
	Basic:	6.84	10.98	6.53
	Diluted:	6.84	10.98	6.53

### Notes:

- The above financial results for the quarter ended June 30, 2025, have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Bank in their respective meeting held on August 13, 2025. These results have been subject to review by the Joint Statutory Auditors of the Bank, viz. Walker Chandok & Co LLP and Statutory Auditors, Chartered Accountants who have issued an unaudited review report thereon. The figures for the quarter ended June 30, 2024 were reviewed by M/s. K. S. Chitambar & Co., Chartered Accountants and Walker Chandok & Co LLP.
- The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2025, filed with the stock exchange under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2025, is available on the website of Stock Exchanges at <http://www.bseindia.com> and also on the Bank's website at <http://www.csbbank.co.in>. The same can be accessed on the Bank's website by scanning the QR code provided below.
- Information relating to Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income is not furnished as Ind AS is not yet made applicable to banks.



Scan the QR code to view the complete Financial Results

Thurs 14 August 13, 2025

CSB Bank Limited, Regd. Office: "CSB Bhawan", Post Box No. 502, St. Mary's College Road, Thiruvananthapuram - 680 025, Kerala, India.  
Tel: +91 487 233020 | Fax: +91 487 2339764 | Website: [www.csbbank.co.in](http://www.csbbank.co.in) | Email: [secretarial@csbbank.co.in](mailto:secretarial@csbbank.co.in) | Corporate Identity Number: L65191KL1920PLC000175

For CSB Bank Limited  
Prabhu Mondal  
Managing Director & CEO  
DIN: 0017994



# ट्रंप शुल्क: 'ब्रिक्स' कूटनीति हुई तेज

वांग यी की यात्रा और जयशंकर-लावरोव बैठक से एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी, शी चिनफिंग और पुतिन की बातचीत के लिए होगा माहौल तैयार



एस जयशंकर, विदेश मंत्री

बीएस संवाददाता

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा शुल्कों के एलान के बाद 'ब्रिक्स' के संस्थापक देशों के बीच इलाक़ बड़ बढ़ गई है और उनके नेता एक दूसरे के साथ सीधे या प्रोक्ष रूप से लगातार संपर्क में हैं। वह सिलसिला आगे बढ़ाते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 21 अगस्त को मास्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठक करेंगे। दूसरी तरफ, चीन के विदेश मंत्री वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अंजित डोभाल के साथ सीमा विवाद पर बातचीत के लिए अमले सप्ताह भारत आ सकते हैं।

भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर जयशंकर को मॉस्को यात्रा या वांग को नई दिल्ली यात्रा की पुष्टि नहीं की है। लेकिन बुधवार को रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर और लावरोव 21 अगस्त को भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों और 'अंतरराष्ट्रीय ढांचे के भीतर सहयोग के पहलुओं' पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे। मिलेंगे। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन को भारत यात्रा की तारीखों को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। नई दिल्ली में सरकारी सूत्रों ने कहा कि वांग की यात्रा (जो 18 अगस्त तक हो सकती है) की तैयारी चल रही है। सीमा विवाद पर चर्चा करने और दोनों सेनाओं के बीच तनाव कम करने का मार्ग प्रशस्त करने के अलावा यह बैठक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के शहर थान्चिन में शीघ्र सहायोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ बैठक के लिए जर्मनी तैयार करने में भी मदद कर सकती है। पिछले सात वर्षों में मोदी की यह पहली चीन यात्रा होगी।

वांग और डोभाल सीमा मुद्दे पर बातचीत के लिए अपने-अपने देशों के विशेष प्रतिनिधि हैं। मोदी और शी ने 24 अक्टूबर 2024 को कजाख में हुई अपनी बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने पर सहमति व्यक्त की थी जिसके बाद डोभाल पिछले साल दिसंबर में वांग के साथ वाला के लिए चीन गए थे। भारत और चीन दोनों देशों के बीच हवाई उड़ान सेवाएं फिर से जल्द शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं।

जयशंकर और लावरोव की बैठक से भारत को शुक्रवार को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की शिखर बैठक के बारे में मॉस्को के आकलन को समझने में भी मदद मिलेगी। यह भी संभावना है कि मोदी तिथानांजन में पुतिन से मिल सकते हैं

## स्वतंत्रता दिवस भाषण में ऑपरेशन सिंदूर पर जोर

बीएस संवाददाता



इस बार शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में पाकिस्तान के साथ युद्ध में सशस्त्र सेनाओं की सफलता, 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारत की जीत और अमेरिका से शुल्कों की धमकियों के बीच किसानों के हितों की रक्षा का सरकार का संकल्प आदि का विशेष जिक्र होगा। लोगों से स्वदेश में निर्मित वस्तुएं खरीदने का आग्रह और आत्मनिर्भर भारत अभियान और स्वदेशी पर सरकार का विशेष ध्यान भी प्रधानमंत्री के भाषण में शामिल रहेंगे।

बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने पूरे देश में 'तिरंगा

यात्रा' में भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कहा कि यह पहल एक जन आंदोलन बन गया है जो देशभक्ति को भावना को मजबूत करता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र

विदिशा-रायसेन में तिरंगा यात्रा और 'स्वदेशी मार्च' का आयोजन किया। उन्होंने लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की और उनके साथ 'स्वदेशी' 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को अपनाने की शाय ली। वर्ष 2047 तक विकास भारत के व्यापक उद्देश्य के तहत 79वें स्वतंत्रता दिवस का विषय 'समृद्ध, सुरक्षित और साहसी नया भारत का निर्धार उदा' रहेगा। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद भारतीय वायु सेना के दो एमआई-17 हेलीकॉप्टर फूलों की वर्षा करेंगे, जिनमें से एक राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा और दूसरा 'ऑपरेशन सिंदूर' को दर्शाता हुआ ध्वज फहराएगा। इस वर्ष लाल किले पर समारोह देखने के लिए लगभग 5,000 विशेष अतिथि आमंत्रित किए गए हैं।

## POORE PACHAAS SAAL!



अमूल ब्लॉकबस्टर फ़िल्म श्रोते के खर्चों जवती वर्ष का जमा।

**insecticides (INDIA) LIMITED**

पंजीकृत कार्यालय 401-402, लूगा टावर, साजादपुर कमिश्नल कॉम्प्लेक्स, दिल्ली-110 033; टेलीफोन: (011) 27679700-05  
वेबसाइट: [www.insectoidesindia.com](http://www.insectoidesindia.com), ईमेल: [investor@insectoidesindia.com](mailto:investor@insectoidesindia.com), CIN: L65991DL1986PLC083909

30 जुन, 2025 को समाप्त तिथि पर अंतिम तिथि पर वित्तिय परिणामों का निष्कर्ष

(रु. लाख में, इंग्लिश के अनुसार)

क्र.सं.	विवरण	एकम			समेकित		
		30-06-2025 (अनुमानित)	31-03-2025 (अनुमानित)	30-06-2024 (अनुमानित)	30-06-2025 (अनुमानित)	31-03-2025 (अनुमानित)	30-06-2024 (अनुमानित)
1	परिचालन से कुल आय	89,511.75	36,208.05	65,922.41	2,00,948.16	89,483.88	36,177.80
2	कर व्ययों की कुल राशि	7,884.83	2,225.13	6,561.24	19,028.49	7,745.35	2,202.33
3	कर व्ययों के बाद की कुल आय	81,626.92	33,982.92	59,361.17	1,81,919.67	81,738.53	33,975.47
4	अधीन के लिए प्राप्त की गई राशि	5,724.64	1,324.86	4,415.16	13,848.59	5,803.09	1,354.98
5	पेड़-आ इलेक्ट्रिकल गैस (एलसी) के लिए प्राप्त की गई राशि	2,909.78	2,909.78	2,959.78	2,909.78	2,909.78	2,959.78
6	पेड़-आ इलेक्ट्रिकल गैस (एलसी) के लिए प्राप्त की गई राशि	-	-	1,06,269.25	-	-	1,06,540.60
7	अधीन के लिए प्राप्त की गई राशि	18.69	4.82	16.60	47.61	10.97	16.68
8	अधीन के लिए प्राप्त की गई राशि	19.69	4.42	16.60	47.61	15.97	16.68

नोट:

- परिचालन से कुल आय: 30-06-2025 को समाप्त तिथि पर अंतिम तिथि पर वित्तिय परिणामों का निष्कर्ष
- कर व्ययों के बाद की कुल आय: 30-06-2025 को समाप्त तिथि पर अंतिम तिथि पर वित्तिय परिणामों का निष्कर्ष
- अधीन के लिए प्राप्त की गई राशि: 30-06-2025 को समाप्त तिथि पर अंतिम तिथि पर वित्तिय परिणामों का निष्कर्ष
- पेड़-आ इलेक्ट्रिकल गैस (एलसी) के लिए प्राप्त की गई राशि: 30-06-2025 को समाप्त तिथि पर अंतिम तिथि पर वित्तिय परिणामों का निष्कर्ष

स्थान: दिल्ली  
दिनांक: 13/08/2025

## नए भारत की नई उड़ान समृद्ध किसान, देश की शान



हर क़दम, हम क़दम

**Cosmo First**

*Ahead Always*

**Growing Responsibly**

**UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS** (Rs In Crores)

**38% EBITDA (YoY)**

**39% PAT (YoY)**

**Figures represent Q1 FY 25-26**

Particulars	Quarter ended		Year ended	
	30.06.2025 Unaudited	30.06.2024 Unaudited	31.03.2025 Unaudited	31.03.2025 Audited
Revenue from operations	800	690	746	2,895
Earning before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)	116	84	85	362
Earning before Interest and Tax (EBIT)	86	60	59	263
Profit before tax	54	37	33	163
Net profit after tax	43	31	27	133
Basic earnings per share (of Rs 10 each) (not annualised)	16.6	12.0	10.5	51.5

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of consolidated and standalone financial results for the quarter ended 30th June 2025 are available on the Stock Exchange websites ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and on Company's website ([www.cosmofirst.com](http://www.cosmofirst.com)).
- The financial results can also be accessed by scanning below QR code.

**New Delhi**  
13th August 2025

**COSMO FIRST LIMITED**  
Regd. Off: 1st Floor, Uppal's Plaza, M-6, Jasola District Centre, New Delhi - 110025 CIN: L92114DL1976PLC008355  
Tel: 011-49949494, E-mail: [investor.relations@cosmofirst.com](mailto:investor.relations@cosmofirst.com)  
Website: [www.cosmofirst.com](http://www.cosmofirst.com)

**ASHOK JAIPURIA**  
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

**COSMO FILMS** **COSMO PLASTECH** **COSMO SUNSHIELD** **COSMO CHEMICALS** **Ziggy**

## एसयूवी, जेन्जी से सेल्फ ड्राइव को रफ्तार: जूमकार

अंजलि सिंह

छोटी यात्राएं, बड़े वाहन और युवा यात्री भारत के सेल्फ-ड्राइव कार टेलर बाजार को तेजी से रफ्तार दे रहे हैं। जूमकार की टैबल टैबल टैबल से यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025 के बुकिंग आंकड़ों के आधार पर यात्रा पैटर्न में काफी बदलाव दिख रहा है। आंकड़ों के अनुसार 71 फीसदी यात्राएं दो दिन से कम समय की हैं, जबकि एक यात्रा पहले यह आंकड़ा 66 फीसदी था। इसी प्रकार एक सप्ताह से ज्यादा लंबी यात्राओं में 28 फीसदी की वृद्धि हुई। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि दूर से काम करने की सुविधा होने के कारण लोग लंबे समय तक अपने घर पर रुक जाते हैं।



हैचबैक को हिस्सेदारी 57 फीसदी से घटकर 51 फीसदी रह गई। इसी प्रकार 6 एवं 7 सीटों वाले मॉडलों की मांग भी 16 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो गई। इससे पता चलता है कि आज की युवा पीढ़ी बड़ी गाड़ियों से सफर करना ज्यादा पसंद करती है। कार टेलर में यह इजाज़ा मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है। बुकिंग के मामले में महोले शहरों में 30 फीसदी और छोटे शहरों में 14 फीसदी इजाज़ा दर्ज किया गया। जयपुर, इंदौर, सिलीगुड़ी और मुंबई जैसे शहरों के लिए बुकिंग में जनवरी वृद्धि दर्ज की गई। हालांति, मंगलूर दिवस और गांधी जयंती जैसे मौकों पर रफ्तार के दौरान बुकिंग में 125 फीसदी इजाज़ा हो गया। इससे पता चलता है कि छोटी मियाद की यात्राओं की चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। इस प्लेटफॉर्म के आंकड़े बताते हैं कि होम डिलिवरी टेलर को तेजी से अपनाया जा रहा है। इसमें ग्राहक किराये पर गाड़ी बुक कराता है और गाड़ी उसके पते पर पहुंचा दी जाती है।

# New SC bench to hear stray dog case today

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, 13 August

After widespread protests across the country following a top court verdict on relocation of stray dogs in Delhi-NCR, a new three-judge bench of the Supreme Court will hear the suo motu case on Thursday.

A bench comprising Justices Vikram Nath, Sandeep Mehta and N V Anand will hear the matter.

The directions to permanently relocate all strays from streets to shelters "at the earliest" were passed by a bench comprising Justice J B Pardi-

wala and Justice R Mahadevan on August 11.

When some petitioners in another stray dogs-related case mentioned their plea while referring to the August 11 verdict before the Chief Justice of India B R Gavai, he said he "will look into it".

On August 11, a bench of Justices Pardiwala and Mahadevan observed instances of dog bites had given rise to an "extremely grim" situation and ordered the permanent relocation of all strays in Delhi-NCR "at the earliest".

On Wednesday, the lawyer referred to a May 2024 order



CJI B R Gavai said "I will look into it", when another plea relating to stray dogs was mentioned before him

passed by a bench led by Justice J K Maheshwari relegating petitions relating to

the stray dog issue to respect high courts.

The plea by Conference for Human Rights (India) claims the Animal Birth Control (Dog) Rules, 2001 — mandating regular sterilisation and immunisation programmes for stray dogs to curtail their growing population — are not being complied with.

In its August 11 ruling, the apex court also said dog shelters will have to be augmented over time and directed Delhi authorities to start with creating shelters of around 5,000 canines within six to eight weeks.

Besides, the bench warned of strict action against an individual or organisation in case of any kind of obstruction in the relocation drive that might also prompt the court to initiate contempt proceedings.

Meanwhile, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has said treating stray dogs as a nuisance to be 'removed' is not governance, it is 'cruelty'.

"Treating stray dogs as a nuisance to be 'removed' is not governance — it is cruelty. Humane societies find solutions that protect people and animals," Siddaramaiah posted on X.

## IOA approves India's 2030 Commonwealth Games bid

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, 13 August

The Indian Olympic Association (IOA) on Wednesday formally approved the country's bid to host the 2030 Commonwealth Games during its Special General Meeting (SGM) here with its top officials saying that India would host an "inclusive" edition featuring all "medal-winning" sports.

India has already submitted an Expression of Interest for the 2030 CWG with Ahmedabad as the host city. But the nation will have to submit the proposals for the final bid before the August 31 deadline.

IOA President P T Usha said along with Ahmedabad, 2010 host Delhi and Bhubaneswar will also be considered.

"I'm happy that all are together and it was a unanimous decision. Our preparations will go ahead. We can't just wait whether Ahmedabad is the host city. We have good facilities in Bhubaneswar and even in Delhi also. We will very soon announce where the Games will be held," Usha said after the SGM that lasted just over half an hour.

"The 2026 Glasgow CWG is a scaled down Games because of circumstances. If we get 2030 CWG, it will be

full fledged one just like we did in 2010," she added, referring to the pruned roster of the 2026 Glasgow edition where major sports like hockey, badminton, wrestling and shooting have been left out citing the cost factor.

IOA CEO Raghuram Iyer said "we cannot say anything as of now", when asked whether there is a chance of more than one city hosting the 2030 CWG.

With Canada having pulled out of the race, India's chances of getting the 2030 CWG have brightened.

"The plan is to have all our medal-earning sports like shooting, archery, wrestling etc. Our traditional sports like kabaddi, kho kho, and yoga should also be there," IOA joint secretary Kalyan Chaubey said.

A team of officials from Commonwealth Sport (earlier CGF), led by its Director of Games Darren Hall, recently visited Ahmedabad to inspect the venues and meet Gujarat government officials.

Asked about the feedback from the Commonwealth Sport delegation, Iyer said, "Overall they have gone back happy and by the end of the month, now that we have the go ahead of the General Body, we will be putting in the proposals."



Regd. Office: 401-402, Lusa Tower, Azadpur Commercial Complex, Delhi-110 033. Telefax: 011-27679700-05  
Website: www.insecticidesindia.com, Email: investor@insecticidesindia.com, CIN: L65991DL1996PLC083909

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025 (₹ In Lacs, Except EPS)

Sl. No.	Particulars	Standalone		Consolidated	
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended
1	Total Income from Operations	30-06-2025 (Unaudited)	30-06-2024 (Audited)	30-06-2025 (Unaudited)	30-06-2024 (Audited)
2	Net Profit for the year (before Tax)	85,911.75	85,922.41	2,00,346.16	85,912.56
3	Net Profit for the year (after Tax)	7,684.83	6,561.34	10,028.49	6,801.42
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	5,730.05	4,912.59	13,976.59	5,810.54
5	Profit & Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	5,734.64	4,743.15	13,849.59	5,803.08
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Financial Year	2,909.78	2,909.78	2,909.78	2,909.78
7	Earnings Per Equity Share (Face Value of ₹10/- each) Diluted	19.69	4.82	16.00	47.81
		19.69	4.42	16.00	47.81

### NOTES:

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results and Explanatory Notes are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and on the Company's website at www.insecticidesindia.com.
- The above financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind AS), as applicable and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Ind AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 5 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and amendments thereto.
- The Board of Directors of Insecticides (India) Limited at its meeting held on August 06, 2024 had approved the dissolution/liquidation of its wholly owned subsidiary IIL Overseas DMCC, Dubai. Accordingly, IIL Overseas (DMCC) has filed the application for winding up / dissolution with DMCA (Office of the Registrar of Companies of Dubai Multi Commodities Centre Authority) for which approval is yet to be received as of June 30, 2025.

Place: Delhi  
Date: 13/08/2025

For and on behalf of the Board of Directors  
Insecticides (India) Limited  
Self:  
(Rajesh Kumar Aggarwal)  
Managing Director  
DIN: 02037672

## POORE PACHAAS SAAL!

YOUR DREAM HOME, OUR COMMITMENT.

TJSB Housing Loan

up to ₹ 3 Cr.  
at 8.10% p.a.\*



Amul BLOCKBUSTER

## EMPOWERING FARMERS ELEVATING THE PRIDE OF NEW INDIA



HAR KADAM HUM KADAM



TOGETHER, WE'RE UNSTOPPABLE

HIGHEST EVER QUARTERLY REVENUE & EBITDA



Gulf Oil Lubricants India Limited  
Registered & Corporate Office: 49/50, MIDC, 12<sup>th</sup> Road, Andheri (E), Mumbai-400 083, Maharashtra, India.  
CIN NO: L22304MH2002PLC267060  
Tel No. +91 22 86487777 | Fax: +91 22 8648232  
Website: www.india.gulfoilltd.com | Email: secretarial@gulfoilltd.co.in

Consolidated Q1 FY 26 Revenue 13.69% Yo-Y  
Consolidated Q1 FY 26 PAT 12.90% Yo-Y

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

Particulars	Standalone (₹ Lakhs)				Consolidated (₹ Lakhs)			
	Quarter ended 30.06.2025 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 30.06.2025 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)
Revenue from Operations	99,636.28	91,508.29	88,507.31	355,436.07	101,645.15	95,274.05	89,404.42	363,116.09
Profit from ordinary activities before tax	12,971.64	12,343.34	11,820.01	48,574.28	12,778.20	12,521.06	11,375.71	47,947.02
Net Profit from ordinary activities after tax	9,665.93	9,161.70	8,802.26	36,224.97	9,517.49	9,279.85	8,429.75	35,738.73
Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit and other Comprehensive Income for the period)	9,625.02	9,035.15	8,762.85	35,888.92	9,476.58	9,153.82	8,390.34	35,410.28
Equity share capital (Face value Rs. 2 per share)	986.09	986.09	983.92	986.09	986.09	986.09	983.92	986.09
Reserves (excluding Revaluation reserves)				145,438.63 (As at 31/03/2025)				145,165.85 (As at 31/03/2025)
Earnings Per Share (Face value Rs. 2 per share)								
a) Basic- Rs.	*19.60	*18.58	*17.90	73.57	*19.45	*18.70	*17.49	73.09
b) Diluted- Rs.	*19.45	*18.41	*17.74	72.90	*19.30	*18.53	*17.34	72.42

### \*Not Annualised

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of statement of unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the statement of unaudited Financial Results is available on the stock exchange websites, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website www.india.gulfoilltd.com.



For and on behalf of Board of Directors of GULF OIL LUBRICANTS INDIA LIMITED  
Ravi Chaudhary  
Managing Director & CEO  
DIN: 02806474

Place: Mumbai  
Date: August 13, 2025

Consistent Growth. Proven Strength.



CSB Bank  
Trusted Heritage Smart Future

### YOY PERFORMANCE HIGHLIGHTS

20%	Total Deposits	₹35,935 Crs
31%	Gross Advances	₹32,944 Crs
25%	Total Business	₹68,879 Crs
42%	Non Interest Income	₹245 Crs
28%	Total Income	₹1,286 Crs
28%	Operating Profit	₹220 Crs

(₹ In Lakh)

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2025 Unaudited	31.03.2025 Audited	30.06.2024 Unaudited	31.03.2025 Audited
1	Total Income from operations	128565	136236	100386	456920
2	Net Profit for the Period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	15952	25654	15243	79953
3	Net Profit for the Period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	15952	25654	15243	79953
4	Net Profit for the Period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	11860	19044	11332	59380
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	Refer Note 3			
6	Equity Share Capital	17354	17354	17354	17354
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet.				415036
8	Earnings Per Share (before extraordinary items)* (Face value of ₹10/- each)				
	Basic:	6.84	10.98	6.53	34.23
	Diluted:	6.84	10.98	6.53	34.23
9	Earnings Per Share (after extraordinary items)* (Face value of ₹10/- each)				
	Basic:	6.84	10.98	6.53	34.23
	Diluted:	6.84	10.98	6.53	34.23

### Notes:

- The above financial results for the quarter ended June 30, 2025, have been reviewed by the Audit Committee and thereon approved by the Board of Directors of the Bank in their respective meeting held on August 13, 2025. These results have been submitted to the Joint Statutory Auditors of the Bank, viz. Walker Chandrasek & Co LLP and Sankaran and Sankaran, Chartered Accountants who have issued an unmodified review report thereon. The figures for the quarter ended June 30, 2024 were reviewed by Maksud M. Chitale & Co., Chartered Accountants and Walker Chandrasek & Co LLP.
- The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2025. The full format of the unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2025, is available on the website of Stock Exchanges at <https://www.bseindia.com> and also on the Bank's website at <https://www.csbbank.in>. The same can be accessed on the Bank's website by scanning the QR code provided below.
- Information relating to Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income is not furnished as per Ind AS is not yet made applicable to banks.



Thurs 14 August 13, 2025

For CSB Bank Limited  
Pradyumn Mohan  
Managing Director & CEO  
DIN: 010017394

CSB Bank Limited, Regd. Office: "CSB Bhawan", Post Box No. 302, St. Mary's College Road, Telivara - 680 025, Kerala, India.  
Tel: +91 487 2333201 | Fax: +91 487 2337614 | Website: [www.csbbank.in](https://www.csbbank.in) | Corporate Identity Number: U65191KL1902PLC001175